बिहार कर्मचारी चयन आयोग,
पो0—वेटनरी कॉलेज, पटना—14

कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन

विज्ञापन सं0—06/25 **पद का नामः—कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)**

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि—25.08.2025 **आवेदन की अंतिम तिथि—26.09.2025**

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों/कार्यालयों से कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)के पदों के रिक्तयों (आरक्षण कोटिवार) से संबंधित अधियाचनाएँ आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचनानुसार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)पद हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिको से ऑनलाइन (Online) आवेदन—पत्र प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति के लिए आमंत्रित किये जाते हैं।

वेतनमान— लेवल—1

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता— दशम/मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उतीर्ण।

विभागवार/कार्यालयवार रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी निम्नरूपेण हैं:—

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	अनारक्षित (01)	अनु0 जाति (02)	अनु0 जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगअभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1	कार्यालय परिचारी	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**104**	**21**	**2**	**35**	**12**	**9**	**20**	**203**	4	दृष्टि दिव्यांग-02 मूक बधिर दिव्यांग-02 चलन्त दिव्यांग-02 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-02
			36	7	1	12	4		7	67		
2	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष,)(क्षेत्रीय कार्यालय) बिहार पटना।	**17**	**14**	**1**	**14**	**0**	**1**	**5**	**52**	1	दृष्टि दिव्यांग -01 मूक बधिर दिव्यांग -01
			6	5	0	5	0		2	18		
3	कार्यालय परिचारी	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विभाग, बिहार, पटना।	**41**	**4**	**0**	**21**	**0**	**5**	**8**	**79**	2	दृष्टि दिव्यांग -1 मूक बधिर दिव्यांग -1 चलन्त दिव्यांग -1
			14	1	0	7	0		3	25		
4	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि—iv)	योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।	**5**	**0**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**11**	1	मूक बधिर दिव्यांग -1
			2	0	0	1	1		0	4		
5	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि—iv)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना।	**6**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**13**	0	मूक बधिर दिव्यांग -1
			2	0	0	0	0		0	2		
6	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (नियोजन) (क्षेत्रीय कार्यालय), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**19**	**6**	**0**	**4**	**3**	**1**	**4**	**37**	0	दृष्टि दिव्यांग -1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			7	2	0	1	1		1	12		
7	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि—iv)	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	**14**	**6**	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**	**26**	1	मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			5	2	0	0	0		1	8		

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	अनारक्षित (01)	अनु0 जाति (02)	अनु0 जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगअभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
8	कार्यालय परिचारी	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।	**11**	**2**	**1**	**2**	**2**	1	**2**	**21**	1	दृष्टि दिव्यांग -1
			4	0	0	0	0		0	4		
9	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**6**	**2**	**0**	**3**	**1**	1	**2**	**15**	1	मूक बधिर दिव्यांग -1
			2	0	0	1	0		0	3		
10	कार्यालय परिचारी	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, (मुख्यालय), बिहार, पटना।	**5**	**1**	**0**	**2**	**2**	0	**1**	**11**	0	दृष्टि दिव्यांग -1
			2	0	0	0	0		0	2		
11	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना।	**8**	**1**	**1**	**4**	**1**	1	**2**	**18**	0	दृष्टि दिव्यांग -1
			3	0	0	1	0		0	4		
12	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	**11**	**4**	**1**	**5**	**3**	1	**3**	**28**	1	दृष्टि दिव्यांग -1
			4	1	0	2	1		1	9		
13	कार्यालय परिचारी	उद्योग विभाग, बिहार, पटना	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	1	**1**	**6**	0	0
			1	0	0	0	0		0	1		
14	कार्यालय परिचारी (कोटि–iv)	परिवहन विभाग, बिहार, पटना।	**19**	**6**	**0**	**4**	**4**	0	**4**	**37**	1	दृष्टि दिव्यांग -1
			7	2	0	1	1		1	12		मूक बधिर दिव्यांग -1
15	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन निदेशालय) बिहार, पटना।	**562**	**206**	**14**	**228**	**10**	4	**114**	**1138**	23	दृष्टि दिव्यांग -11 मूक बधिर दिव्यांग -11 चलन्त दिव्यांग -12 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -12
			197	72	5	80	4		40	398		
16	परिचारी (विशिष्ट) (माली)	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	**200**	**80**	**5**	**90**	**60**	15	**50**	**500**	10	दृष्टि दिव्यांग -5 मूक बधिर दिव्यांग -5 चलन्त दिव्यांग -5 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -5
			70	28	2	32	21		18	171		
17	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।	**7**	**0**	**1**	**0**	**0**	1	**1**	**10**	0	दृष्टि दिव्यांग -1
			2	0	0	0	0		0	2		
18	कार्यालय परिचारी	गव्य विकास निदेशालय (अधिनस्थ कार्यालयों) मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**11**	**4**	**1**	**5**	**2**	0	**3**	**26**	1	दृष्टि दिव्यांग -1 मूक बधिर दिव्यांग -1
			4	1	0	2	0		1	8		

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	अनारक्षित (01)	अनु0 जाति (02)	अनु0 जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगअभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
19	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन) (मुख्यालय), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**5**	0	0
			0	0	0	0	0		0	0		
20	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष) बिहार, पटना।	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**4**	1	मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			0	0	0	0	0		0	0		
21	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv	बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना।	**6**	**0**	**1**	**3**	**1**	**0**	**1**	**12**	0	दृष्टि दिव्यांग -1
			2	0	0	1	0		0	3		
22	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।	**12**	**4**	**1**	**5**	**3**	**1**	**3**	**29**	1	दृष्टि दिव्यांग -1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			4	1	0	2	1		1	9		
23	कार्यालय परिचारी	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य विकास निदेशालय (मुख्यालय), बिहार, पटना।	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	0	0
			0	0	0	0	0		0	0		
24	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	**1**	**4**	**0**	**5**	**0**	**2**	**1**	**13**	0	मूक बधिर दिव्यांग -1
			0	1	0	2	0		0	3		
25	कार्यालय परिचारी	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**35**	**7**	**1**	**4**	**6**	**3**	**6**	**62**	1	मूक बधिर दिव्यांग -1 चलन्त दिव्यांग -1
			12	2	0	1	2		2	19		
26	कार्यालय परिचारी (कोटि–iv)	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्रीय लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	0	0
			0	0	0	0	0		0	0		
27	कार्यालय परिचारी	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	0	0
			1	0	0	0	0		0	1		
28	कार्यालय परिचारी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।	**8**	**2**	**1**	**3**	**0**	**1**	**2**	**17**	1	दृष्टि दिव्यांग-1
			3	0	0	1	0		0	4		
29	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।	**23**	**24**	**1**	**17**	**0**	**6**	**8**	**79**	2	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			8	8	0	6	0		3	25		
30	कार्यालय परिचारी (कोटि–iv)	विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	0	0
			0	0	0	0	0		0	0		

04/08/2025

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	अनारक्षित (01)	अनु0 जाति (02)	अनु0 जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगअभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
31	कामदार (कोटि–iv)	गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	**72**	**28**	**2**	**32**	**19**	**5**	**18**	**176**	3	दृष्टि दिव्यांग-2 मूक बधिर दिव्यांग-2 चलन्त दिव्यांग-2 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			25	10	0	11	7		6	59		
32	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	योजना एवं विकास विभाग (स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन), बिहार, पटना।	**38**	**15**	**1**	**16**	**11**	**3**	**9**	**93**	2	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1 चलन्त दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			13	5	0	6	4		3	31		
33	कार्यालय परिचारी	गृह विभाग, अभियोजन निदेशालय (क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालय), बिहार, पटना।	**18**	**4**	**0**	**10**	**2**	**2**	**4**	**40**	1	चलन्त दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			6	1	0	4	1		1	13		
34	कार्यालय परिचारी	स्वास्थ्य विभाग,. बिहार, पटना।	**10**	**0**	**1**	**0**	**2**	**1**	**2**	**16**	1	मूक बधिर दिव्यांग-1
			4	0	0	0	0		0	4		
35	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	समाज कल्याण विभाग (सामाजिक सुरक्षा निदेशालय), बिहार, पटना।	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	0	**0**
			0	0	0	0	0		0	0		
36	कार्यालय परिचारी	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत (गव्य विकास निदेशालय) बिहार, पटना।	**2**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**7**	0	**0**
			0	0	0	0	0		0	0		
37	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।	**18**	**6**	**1**	**7**	**5**	**1**	**4**	**42**	1	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1
			6	2	0	2	2		1	13		
38	कार्यालय परिचारी (कोटि–iv)	समाहरणालय, भागलपुर।	**45**	**18**	**1**	**20**	**13**	**3**	**11**	**111**	2	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1 चलन्त दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			16	6	0	7	5		4	38		
39	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	समाहरणालय, मुजफ्फरपुर।	**44**	**7**	**1**	**24**	**10**	**4**	**10**	**100**	2	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1 चलन्त दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			15	2	0	8	4		4	33		
40	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	समाहरणालय, अरवल।	**8**	**4**	**0**	**5**	**2**	**1**	**2**	**22**	0	चलन्त दिव्यांग-1
			3	1	0	1	0		0	5		
41	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–iv)	समाहरणालय, कटिहार।	**31**	**9**	**0**	**9**	**0**	**3**	**6**	**58**	1	दृष्टि दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग-1
			11	3	0	3	0		2	19		

04/08/2015

क्र0 सं0	पद का नाम	विभाग/कार्यालय का नाम	अनारक्षित (01)	अनु0 जाति (02)	अनु0 जन जाति (03)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	पिछड़ा वर्ग (05)	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	कुल पदों की संख्या	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी हेतु आरक्षित पदों की संख्या	दिव्यांगअभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की सं0
			35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
42	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	समाहरणालय, नालंदा।	**29**	**4**	**1**	**13**	**1**	**3**	**6**	**57**	1	मूक बधिर दिव्यांग -1 चलन्त दिव्यांग -1
			10	1	0	5	0		2	18		
43	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)	**16**	**4**	**0**	**7**	**6**	**3**	**4**	**40**	1	दृष्टि दिव्यांग -1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			6	1	0	2	2		1	12		
44	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, खगड़िया।	**14**	**5**	**1**	**6**	**4**	**1**	**4**	**35**	1	दृष्टि दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			5	2	0	2	1		1	11		
45	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, किशनगंज।	**14**	**0**	**0**	**6**	**0**	**2**	**2**	**24**	0	मूक बधिर दिव्यांग-1
			5	0	0	2	0		0	7		
46	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, बक्सर।	**16**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**2**	**23**	1	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1
			6	0	0	0	0		0	6		
47	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, पटना।	**95**	**26**	**2**	**43**	**26**	**7**	**22**	**221**	4	दृष्टि दिव्यांग- 2 मूक बधिर दिव्यांग- 3 चलन्त दिव्यांग-2 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग - 2
			33	9	0	15	9		8	74		
48	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	समाहरणालय, भोजपुर।	**21**	**8**	**1**	**8**	**5**	**3**	**5**	**51**	1	मूक बधिर दिव्यांग- 1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -1
			7	3	0	3	2		2	17		
49	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, जमुई	**11**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**14**	0	**0**
			4	0	0	0	0		0	4		
50	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	समाहरणालय, बेगूसराय।	**46**	**17**	**1**	**21**	**12**	**0**	**11**	**108**	2	दृष्टि दिव्यांग-1 मूक बधिर दिव्यांग-1 चलन्त दिव्यांग-1 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -2
			16	6	0	7	4		4	37		
51	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	समाहरणालय, जहानाबाद	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**1**	**1**	**5**	0	**0**
			0	0	0	0	0		0	0		
52	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	आयुक्त कार्यालय,भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर।	**3**	**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**9**	1	दृष्टि दिव्यांग-1
			1	0	0	0	0		0	1		
53	कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)	आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।	**2**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**6**	0	दृष्टि दिव्यांग -1
			0	0	0	0	0		0	0		
		कुल पदों की संख्या	**1700**	**564**	**47**	**702**	**238**	**102**	**374**	**3727**	**78**	दृष्टि दिव्यांग-47 मूक बधिर दिव्यांग-43 चलन्त दिव्यांग-32 मनोविकार दिव्यांग/बहु दिव्यांग -37
			590	185	8	236	77		120	1216		

04/08/2025

नोट–I.कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पद हेतु कुल 3727पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1216 पद सम्मिलित हैं।

नोट–II. राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट–III. राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

नोट–IV. उपर्युक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो घट–बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों/कार्यालयों के द्वारा संशोधित रिक्तियाँ अथवा नये पद हेतु रिक्तियाँ, जिनकी शैक्षणिक योग्यता दशम/मैट्रिक अथवा समकक्ष होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है।

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः–

ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थानसेदशम/मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य है।

3. उम्र सीमा :–अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक–01.08.2025 के आधार पर की जाएगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग)के संकल्प संख्या–294, दिनांक–07.01.2016 के अनुसार उम्र सीमा निम्नरूपेण निर्धारित की जाएगीः–

न्यूनतम उम्र सीमा :–18 वर्ष (सभी कोटियों के लिए)।

अधिकतम उम्र सीमा :–

क्र0सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
01	अनारक्षित (पुरूष)	37 वर्ष
02	पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष
03	अनारक्षित (महिला)	40 वर्ष
04	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	42 वर्ष
05	सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी	उपर्युक्त कोटिवार अधिकतमं उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट।

आयोग द्वारा Matriculationया समतुल्य प्रमाण–पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–6519, दिनांक–10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–22218 (गजट), दिनांक–12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया हैः–

(क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग–अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।

(ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(iii) 01 जनवरी 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्त्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए अपनी वास्वतिक उम्र से उतने दिन घटाने की

04/08/2025

अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र उक्त पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके संबंध में यह माना जायेगा कि वे उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्त्तें पूरी करते हैं।

(iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–2447, दिनांक–06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिको को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जायेगी। बशर्तें की उनकी वास्तविक उम्र आवेदन की तिथि को 53 वर्ष से अधिक न हो।

(v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशण्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी उक्त प्रतियागिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस पद पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षो की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त–समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्तें कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।

(vi)ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सराकर की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई0सीओज/एस0एफ0सीओज सहित) की अधिकतम उम्र सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

(vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हो, का प्रमाण पत्र, प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) **उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।**

4.<u>परीक्षा की प्रकृतिः</u>–वस्तुनिष्ठ।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली–2010 के आलोक में 40 (चालीस) हजार से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुये तैयार की जाएगी।

लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धरिक्तियों के 05 (पाँच) गुणा संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम (A To Z) के आधार पर उन्हें मेधासूची में रखा जाएगा।

प्रारंभिकपरीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नांकित विषय होंगेः–

(क) सामान्य अंक गणित

(ख) सामान्य ज्ञान

(ग) सामान्य हिन्दी

प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। नियमानुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय देय होगा। प्रारंभिक

04/08/2025

परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

5.पाठ्यक्रमः—लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से हैः—

- **सामान्य अंक गणित — 30 अंक**

  लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ—हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात

- **सामान्य ज्ञान — 40 अंक**
  - संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ—व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन
  - संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र—राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की समाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल
  - मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।
  - भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद,
  - प्रकाश—परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रसायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
  - समसामयिक घटनाऐं।

- **सामान्य हिन्दी — 30 अंक**
  - संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द—शुद्धि, वाक्य शुद्वि, तत्सम तदभव शब्द, उपसर्ग, मुहावरा, प्रत्यय, उपसर्ग।
  - 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

6. क्वालीफाइंग मार्क्सः—

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या—2374, दिनांक—16.07.2007 के आलोक में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत् हैः—

कोटि	न्यूनतम अर्हतांक
अनारक्षित वर्ग	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	36.5 प्रतिशत
अ0पि0वर्ग	34 प्रतिशत
अनु0 जाति/जनजाति	32 प्रतिशत
महिला वर्ग	32 प्रतिशत
दिव्यांग (सभी वर्ग)	32 प्रतिशत

7. परीक्षा शुल्क :—

कोटि	परीक्षा शुल्क
सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थी	540 रूपये
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	135 रूपये
सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए (अनु0 जाति/जनजातिं के समान)	135 रूपये
सभी श्रेणी की महिलायें (सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी के लिए)	135 रूपये
बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों (पुरूष/महिला) हेतु	540 रूपये

04/08/2025

परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क (Processing Charge) एवं सेवा कर (Service Tax) अभ्यर्थी द्वाराअलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन (Credit Card/Debit Card/UPI/Net Banking आदि के माध्यम से) जमा किया जाएगा।

ऑनलाईन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे (Online Payment Gateway) के माध्यम से दिनांक–25.08.205 से 24.09.2025 तक जमा किया जा सकेगा।

मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होगा।

8. आरक्षणः–

(i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के सम्प्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(iii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण–पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

(a) जाति प्रमाण–पत्र।

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण–पत्र।

(B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोडकरना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(C) **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

(D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

(v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र भौतिक रूप में उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा, एवं उन्हें सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। (उदाहरण स्वरूप यदि BC कोटि के अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय EBC अंकित करते है तथा प्रमाण–पत्र संवीक्षा के दौरान BC कोटि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करते है तो उन्हें अनारक्षित कोटि में रखा जाएगा)।

यदि उम्मीदवार प्रमाण–पत्र संवीक्षा के दौरान संगत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो उन्हें अनारक्षित कोटि में मान्य कर दिया जायेगा। तदनुसार आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं (यथा–प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा) का परीक्षाफल की संवीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, के संकल्प ज्ञापांक–962, दिनांक–22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability)को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–8962, दिनांक 21.05.2025 के आलोक में राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।**ऐसे आरक्षण का दावा करने की

स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण–पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (Civil Surgeon/CMOद्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मींदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण–पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के स्तर से निर्गत हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में दिव्यांगता आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण–पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या–10668, दिनांक–29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2568, दिनांक–11.02.2025 के आलोक में अधिनियम की धारा–2(s) के अन्तर्गत परिभाषित, परन्तु इस अधिनियम की धारा–2(r) के अन्तर्गत अपरिभाषित विशिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थियों अर्थात् 40%से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में असमर्थ अभ्यर्थियों को **श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं अनुसूची–II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कंडिका में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में YES करना अनिवार्य होगा।**

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2342, दिनांक–15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35%क्षैतिज आरक्षण देय होगा।35%क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की पदवार एवं कोटिवार संख्या तालिका में अंकितहै।**सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–12575, दिनांक–09.07.2025 के आलोक में सम्पूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी) महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।**

(ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–11687, दिनांक–30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।**

(x) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक–26.02.2019 एवं पत्रांक–12123, दिनांक–23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।**विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।**

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण–पत्र यथा Matriculationप्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी डिग्री/औपबंधिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण–पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण–पत्र, दिव्यांगता

04/08/2025

प्रमाण–पत्र, <u>अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण–पत्र,</u> अनापत्ति प्रमाण–पत्र इत्यादि का निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय उपरोक्त सभी संगत प्रमाण–पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्रों की संवीक्षा के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण–पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

<u>सभी वांछित प्रमाण–पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।</u>

9. <u>महत्वपूर्ण निर्देशः–</u>

I. किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा और यह अंतिम होगा। मात्र प्रवेश पत्र (Admit Card) निर्गत होने से अभ्यर्थी के अभ्यर्थित्व का दावा संपुष्ट नहीं माना जाएगा।

II. **किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने अथवा चयन की प्रक्रिया को किसी प्रकार का अनुचित तरीका अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।**

III. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के क्रम में हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर को स्कैन कर अपलोड करेंगे।

IV. इंटरनेट या बैंकिग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। साथ ही, गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

V. अभ्यर्थी आवेदन–पत्र को**Submit** करने के पूर्व **Preview**देखकर संतुष्ट हो लेंगे एवं यदि कोई सुधार आवश्यक हो, तो **Edit option** का उपयोग कर आवश्यक सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन–पत्र को**Submit** करेंगे।

VI. **एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदल कर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा।**

VII. वैध एवं सक्रिय मोबाईल नम्बर तथा ई–मेल आई०डी० दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि भविष्य में संवाद के लिए इसे इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप गलत या अवैध मोबाईल नम्बर और/या ई–मेल आई०डी० दर्ज करते हैं, तो भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएँ प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे, जिसके लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

VIII. **अभ्यर्थी अपना Application Form Number/Registration Number/Roll Number को सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (फोटो सहित) की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी परिस्थिति में डूप्लीकेट/द्वितीयक रजिस्ट्रेशन नम्बर/एप्लिकेशन फार्म नम्बर/प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में निर्गत नहीं किये जायेंगे।**

IX. **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–9667, दिनांक–20.06.2024 के आलोक में लिखित परीक्षा Online (Computer Based Test)/Offline Mode(OMR Sheet Based)में आयोजित की जा सकती है।**

X. विभिन्न परीक्षाओं के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों के द्वारा पररुपधारण (**Impersonation**) करने का प्रयास किया जाता रहा है। अतएव अभ्यर्थियों का परीक्षा के दौरान **Biometric Thumb Impression/Iris Capture** लिया जा सकता है, ताकि चयन की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के**Biometric Thumb Impression/Iris Capture** का मिलान किया जा सके।**Biometric Thumb Impression/Iris Capture** मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध आयोग द्वारा विधि–सम्मत यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

04/08/2024

XI. वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो।

XII. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

नोटः—उम्मीदवारों की अर्हता, आवेदन पत्रों को स्वीकार/अस्वीकार करने, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों का आवंटन/निर्धारण, परीक्षाफल तैयार करने की प्रक्रिया एवं सफल उम्मीदवारों के पदों/संवर्ग के लिए चयन एवं आवंटन के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, जो सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी/मान्य होगा तथा इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/पत्राचार के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

10. <u>ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देशः—</u>

ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	**25.08.2025**
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि	**24.09.2025**
ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	**26.09.2025**

I. ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र यथा—
   a) मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण—पत्र।
   b) स्थायी निवास/आवासीय प्रमाण—पत्र।
   c) जाति प्रमाण—पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण—पत्र।
   d) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण—पत्र।
   e) दिव्यांगता संबंधी प्रमाण—पत्र।
   f) अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण—पत्र/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण—पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे।

II. ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निदेश आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.inपर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

III. ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

IV. अभ्यर्थी के नाम/माता का नाम/पिता का नाम/जन्मतिथि मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण—पत्र/अंक— पत्र के अनुसार होना चाहिए।

V. सभी अभ्यर्थी अपनी कोटि (Category) की प्रविष्टि सावधानीपूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरान्त ही भरें।

VI. विज्ञापन की कंडिका—8 (आरक्षण) की उपकंडिका—(Vii) केआलोक में दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करेंगे, जिसके अनुसार उन्हें श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जाएगा।

VII. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) Live Photo Webcamके माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

VIII. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण—पत्रों/वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।

IX. योग्यता संबंधी प्रमाण—पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है।

04/08/2025

X. अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल में कांउसिलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्र मूल में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

XI. **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र मूल रुप में उपलब्ध है।**

XII. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पूर्व वे स्वयं संतुष्ट हो ले कि सभी जानकारी सही–सही भरा गया है। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात् किसी भी कॉलम में भरे गए सूचनाओं को बदलने संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं इस संबंध में किसी पत्राचार को स्वीकार नही किया जायेगा।**

11. <u>घोषणाः–</u>

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली–भाँति पढ़ लिया है। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिये गये विवरण की पुष्टिकरण माँगेगा, मैं निदेशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा/करूँगी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डूप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह भी जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

12. <u>अंतिम तिथिः–</u>

ऑनलाईन आवेदन दिनांक–.25.08.2025 से 26.09.2025 की रात्रि 11:59 बजे (Server Time) तक आयोग के वेबसाईट **<u>https://bssc.bihar.gov.in</u>**पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

04/08/2025

सचिव
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।